

STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS) CHENNAI 600 086
(For candidates admitted from the academic year 2023-24)

B.A./ B.B.A./ B.C.A./ B.Com./ B.S.W./ B.Sc./ B.V.A. DEGREE EXAMINATION
APRIL 2024
SECOND SEMESTER

COURSE : FOUNDATION - COURSE
PAPER : HINDI GADYA EVAM ABHYAS
SUBJECT CODE : 23HN/FC/GA23
TIME : 3 HOURS

MAX. MARKS : 100

I SECTION – A					
A		निम्नलिखित प्रश्नों में किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर लिखिए			
		4x5 = 20			
1	प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का उद्देश्य क्या है समझाइये ?	CO1	K1		
2	किन्नरों की उपेक्षा करना महा पाप क्यों है ?	CO1	K1		
3	मन्नू भंडारी के अकेली कहानी के मुख्य पात्र का परिचय दीजिये।	CO1	K1		
4	शामनाथ अपनी माँ को क्या क्या निर्देश देता है और क्यों ?	CO1	K1		
5	माँ ने दावत में कैसे रंग भर दिया ? स्पष्ट कीजिये	CO1	K1		
B		निम्नलिखित प्रश्नों में किन्ही चार प्रश्नों का उत्तर लिखिए			
		4x5 = 20			
6	पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ एकांकी में संतू ने अपने गावँ को खुशियों से किस प्रकार भर दिया ?	CO1	K1		
7	डॉ कृष्णा श्रीवास्व द्वारा लिखित एकांकी देहलीज के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिये	CO1	K1		
8	उषा प्रियंवदा के वापसी का उद्देश्य क्या है ?	CO1	K1		
9	हरियाली परी ने संतू से क्या करने को कहा ?	CO1	K1		
10	गजाधर बाबू की तुलना चारपाई से क्यों किया गया?	CO1	K1		
SECTION - B			5x3 = 15		
II		स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्त शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक है। व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इसे करते समय शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु, प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। व्यायाम के आनेक लाभ है - इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है , भोजन ठीक से पचता है , शरीर पुष्ट बन जाता है। थकान कम अनुभव होती है तथा मष्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।		CO2	K2
उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विकल्पों में से चुनिए		CO2	K2		
11	गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक है				
	A व्यायाम से हानि	B पौष्टिक भोजन	CO2		
	C व्यायाम के लाभ	D शुद्ध हवा	K2		

12	स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है ?		CO2	K2
	A शुद्ध हवा पानी	B पौष्टिक भोजन और व्यायाम		
	C हवा और व्यायाम	D पानी और भोजन		
13	कसरत का पर्यायवाची शब्द		CO2	K2
	A पहलवानी	B मुक्केबाजी		
	C व्यायाम	D खेलना		
14	व्यायाम करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ?		CO2	K2
	A स्वर्णमय	B दुःखमय		
	C कष्टमय	D शरीर की क्षमता		
15	व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं		CO2	K2
	A कम थकान	B शुद्ध रक्त का संचार		
	C सभी	D पुष्ट शरीर		
SECTION-C			1x15=15	
III	किसी एक पर निबंध लिखिए			
16	भारत में नारी का स्थान		CO3	K3
17	कंप्यूटर		CO3	K3
18	साहित्य और समाज		CO3	K3
SECTION-D			2x15=30	
IV	किसी एक का उत्तर लिखिए			
19	डॉ कृष्णा श्रीवत्सव के दहलीज एकांकी का सारांश लिखिए।		CO4	K4
20	श्री प्रकाश मनु द्वारा रचित पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ का सारांश लिखिए।		CO4	K4
	किसी एक का उत्तर लिखिए			CO4
21	प्रेमचंद के ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए।		CO4	K4
22	चीफ की दावत कहानी का सारांश लिखिए।		CO4	K4

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^